



राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साअधिकार प्रकाशित

Published by Authority

भाद्र 28, गुरुवार, शाके 1941-सितम्बर 19, 2019  
Bhadra 28, Thursday, Saka 1941-September 19, 2019

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 04, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/8619** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Kherli has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Kherli. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer .

**By Order,**  
Ujjwal Rathore,  
**Joint Secretary to Government.**

**नगर पालिका खंडली (अलवर)**

**प्रपत्र - क**

वार्ड नं.	सीमाओं का विवरण	जनसंख्या 2011			वि. वि.
		कुल	अनु. जाति	अनु. जनजाति	
1	राजपाल सिपाही से पूर्व की तरफ चलते हुये दक्षिण भाग को शामिल करते हुये मंगल कोली होते हुये कठूमर रोड दक्षिणी दिशा में चलते हुये पश्चिमी भाग को शामिल करते हुये पीएचईडी कार्यालय को शामिल करते हुये पश्चिमी भाग को ओर अंजली पैलेस के सामने वाले हिस्से को शामिल करते हुये सुभाष जांगिड प्रिन्सीपल से उत्तर दिशा की ओर नगरपालिका की सीमा के सहारे पूर्वी भाग को शामिल करते हुये राजपाल सिपाही तक	551	62	43	
2	रेवती रामस्वरूप की दुकान से तर्फ दक्षिण को चलते हुये भजेडा वालों की दुकान तक, तरफ पश्चिम को	559	55	0	

	मुडते हुये रमेश खींची पूर्व विधायक को मकान को सम्मलित करते हुये, रोशन पकौड़े वाले को सम्मलित करते हुये सुरेश सुन्दरावली तक समस्त उत्तरी भाग तरफ दक्षिण को राहुल जैन के मकान तक पश्चिम की ओर चलते हुये पशु चिकित्सालय को सम्मलित करते हुये समस्त पूर्वी भाग हण्डू हरिजन तक, हण्डू से रामोतार के घेर को सम्मलित करते हुये पश्चिम की ओर चलते हुये, रमेश बगीची की सम्मलित करते हुये सडक के पूर्व दिशा की ओर मकानों सम्मलित करते हुये ढहरा वाले के मकान को सम्मलित करते हुये उत्तर दिशा की ओर दाऊदयाल के मकान तक एवं दाऊदयाल के मकान से अंजली पैलेस होते हुये समस्त दक्षिणी भाग को सम्मलित करते हुये रेवती रामस्वरूप की टाल तक				
3	सुभाष पान भण्डार से पूर्व में चलकर उत्तरी भाग शामिल कर गोपाल सर्किल छोटा पोस्ट आफिस के पीछे तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग लेकर सोहनलाल की दुकान तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग लेकर ओमप्रकाश कीलपुर खेडा वाले के मकान तक वहां से उत्तर चलेकर पश्चिमी भाग शामिल कर पोस्ट आफिस के पास राधारमन पावटा वाले के मकान तक वहां से पश्चिमी चलकर दक्षिण भाग शामिल कर रमेश तहसील के कोने तक वहां से उत्तर वहां चलकर पश्चिमी भाग शामिल कठूमर रोड मोदी की दुकान तक कठूमर रोड वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर कठूमर रोड चलकर सुभाष पान भण्डार कठूमर रोड तक	580	0	5	
4	कठूमर रोड भजेडा वालों के मकान से तरफ पश्चिम चलकर दक्षिण भाग लेते हुये प्यारेलाल थून वाले के घेर तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग लेते हुये लल्लुआ के मकान तक वहां से पूर्व सिरा से उत्तर चलकर रैस्ट हाउस गांधी पार्क के बीच से चलकर मदन प्रिन्सीपल कठूमर रोड पर मकान तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिम भाग लेकर भजेडा वालों तक	512	0	4	
5	हण्डू हरीजन धर्मशाला से तरफ दक्षिण चलकर पश्चिम में नगरपालिका सीमा व चमनलाल बजाज की बगीची मन्दिर से बाबूलाल बसेठिया के मकान	763	32	5	

	से तरफ पूर्व में चलकर कजोडी धर्मशाला से भोली बाबा के मकान तक वहां से उत्तर में चलकर पश्चिम भाग शामिल कर ज्ञानचंद सर्राफ की प्लाट तक वहां से पश्चिम गली में चलकर दक्षिण भाग लेकर शिव स्कूल शामिल करते हुये हण्डू हरीजन की धर्मशाला तक।				
6	कजोडी बाबा के छप्पर से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग लेकर रमेशचंद जैन के प्लाट तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग लेकर मोहन तेल वाले के घर तक व पूर्व चलकर उत्तरी भाग लेकर गंगालहरी के मकान तक व उत्तर पश्चिमी भाग लेकर गंगाराम टायर वाले का मकान से पूर्व चलकर विरेन्द्र मास्टर के मकान तक व पूर्व चलकर पश्चिम भाग शामिल कर नगरवालों के मकान तक वहां से उत्तर पश्चिम भाग शामिल करते हुये कजोडी बाबा के छप्पर तक।	651	23	6	
7	पदम जैन के मकान से तरफ पश्चिम चलकर दक्षिण भाग को शामिल कर छिद्दा शर्मा तक वहां तरफ दक्षिण चलते हुये जगदीश पाटोडिया तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग शामिल करते हुये गुप्ता सौंखर वाले तक वहां दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर मुंशी खां मास्टर तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग लेकर नजीर खां वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर नन्नी दर्जी को शामिल कर श्रवणसिंह गेहरी वाले तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग शामिल कर मिलन कोली की दुकान वहां से उत्तर चलकर पश्चिम भाग शामिल कर मोहनलाल मीणा तक देव के मकान रब्बो भल्ले वाले तक पूर्वी पश्चिम भाग रब्बो से पूर्व में चलकर उत्तरी भाग लेकर मस्जिद से उत्तर चलकर पश्चिम भाग लेकर पदमचन्द तक	948	0	20	
8	प्रहलाद दूधिया के मकान से दक्षिण की ओर चलकर पूर्वी भाग को शामिल करते हुए सेड का मड होते हुए हरी कागजी के घर तक, वहां से पूव की ओर चलकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुए रामबाबू हरिजन होते हुए कालू जैन घोसराना वाले तक, वहां से उत्तर की ओर चलकर पश्चिमी भाग को शामिल	749	201	8	

	कर रामनिवास सोनी होते हुए जगदीश पटवारी के मकान तक, वहां से पश्चिम की ओर चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए सुमेर चन्द जैन तक, वहां से उत्तर दिशा की ओर चलकर पश्चिमी भाग को शामिल करते हुए अमित बीडी वाले के मकान तक, वहां से पश्चिम दिशा की ओर चलकर दक्षिणी भाग शामिल करते हुए प्रहलाद दूधिया के मकान तक				
9	मगन लाल गोयल स्कूल से उत्तर दिशा की ओर चलकर जी.एस मनोहर स्कूल से पश्चिम की ओर मुडकर दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए जोगी नगला को शामिल कर नगरपालिका सीमा के सहारे चलते हुए प्रकाश साहू की फैक्ट्री को सम्मिलित कर पूरण टैकर वाले से दक्षिण की ओर चलते हुए करण सैनी होते हुए दक्षिणी भाग को शामिल कर पूर्व की ओर चलते हुए रेलवे लाइन के सहारे उत्तरी भाग को शामिल कर समूची फाटक की ओर बोधा जाटव के मकान तक, वहां से पश्चिम दिशा की ओर चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुए मगन लाल गोयल स्कूल तक।	674	188	0	
10	रामदयाल दरवाजे से समूची रोडे तरफ दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर समूची फाटक नगरपालिका सीमा रेलवे फैन्सिंग सहारे चलकर जैन मन्दिर के पीछे तक सम्पूर्ण पश्चिम उत्तरी भाग लेते हुये जैन मन्दिर के पीछे कोने से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग शामिल सत्यवृत तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग हरना तेली तक वहां दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर सरोजनी स्कूल वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग शामिल कर बादशाह खां तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग लेकर बाबू नाई तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग शामिल कर रामसेवक हलवाई तक वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर रामदयाल पिछवाडै तक	452	60	0	
11	सत्यनारायण शर्मा से चलकर पूर्व दिशा में दक्षिणी भाग शामिल कर छगनलाल जैन से दक्षिण चलकर पश्चिम भाग शामिल कर चन्द्रकला तक वहां से	732	8	0	

	पश्चिम चल कर उत्तरी भाग शामिल कर जगदीश सर्राफ तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिमी भाग शामिल कर प्रहलाद सुनार वहां से पश्चिम चलकर उत्तरी भाग शामिल कर बृजू सट्टे वाले तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग शामिल कर सुल्तान भडभूजा वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग शामिल कर नवाव मनिहार तक वहां से उत्तर चलकर पूर्वी भाग शामिल कर बिडला मास्टर तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग शामिल कर रमेश खोहरा वाले तक पूर्वी भाग शामिल कर सत्यनारायण शर्मा तक				
12	कठूमर रोड भगवती सर्राफ से तरफ पश्चिम चलकर गांधी पार्क रैस्ट हाउस की सडक से तरफ दक्षिण चलकर तरफ महेन्द्र जैन तक पहुंचकर पीछे भोलेनाथ पहुंचकर दक्षिण चलकर देवेन्द्र कुमार वकील के मकान तक वहां से तर्फ पूर्व चलकर कठूमर रोड बनवारी के मकान तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग शामिल कर भगवती सर्राफ के मकान तक	588	0	0	
13	मोहनसिंह राजपूत नूनिया कठूमर रोड से तरफ दक्षिण चलकर क्रय विक्रय के गोदाम तक वहां से पूर्व में चलकर दोनो साईड लेते हुये चुंगी नाका पहुंचकर तर्फ उत्तर घूमकर दोनों साईड लेते हुये रामशरण भोलनाथ पहुंचकर पूर्व में चलकर सुरेश के मकान वहीं से दोनों तरफ लेकर अशोक हलवाई की लाईन के मकानों की शामिल करते हुये उत्तर चलकर राजेन्द्र की दुकान से पश्चिम चलकर भगवान कालवाडी के मकान तक वहां से दक्षिण मुडकर पूर्वी भाग लेते हुये छीतर की दुकान तक वहां से पश्चिम चलकर भगवान कालवाडी के मकान तक वहां से दक्षिण मुडकर पूर्वी भाग लेते हुये छीतर की दुकान तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग को लेकर मोहनसिंह राजपूत कठूमर रोड तक	519	0	6	
14	हिण्डौन रोड श्याम मिष्ठान भण्डार से टट्टा वाले जैन गली से तरफ दक्षिण चलकर दोनों साईड शामिल कर रेल्वे फन्सिंग तक तरफ पूर्व में चलकर उत्तरी भाग लेकर रामस्वरूप भट्टा वाले तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग लेकर देवी दवाई वाले तक	607	35	2	

	वहां से पूर्व घूमकर सुनार के मकान से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग शामिल कर सत्यवृत पहुंचकर तरफ पूर्व घूमकर उत्तरी भाग लेकर सामन्ता जाटव तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग शामिल कर हिण्डौन रोड वहां से पश्चिम घूमकर दक्षिण भाग लेकर श्याम मिष्ठान भण्डार तक				
15	हिण्डौन रोड माया सैन की दुकान से तरफ उत्तर चलकर पूर्वी भाग लेते हुये मोती लखेरा तक वहां से तरफ पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग लेते हुये गली में केशवेदव तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिमी भाग शामिल करते हुये प्रभु टैलर के मकान तक वहां से दक्षिण चलकर पश्चिम भाग लेते हुये केदार कालवाडी के मकान तक वहां से पश्चिमी चलते हुये छीतर के मकान होते हुये हिण्डौन रोड रामदयाल मैनापुरा की दुकान से तरफ पश्चिम चलकर उत्तर भाग लेते हुये माया सैन की दुकान तक	601	0	0	
16	हरिदत्त मास्टर के मकान हिण्डौन रोड से तरफ उत्तर की सडक सडक चलकर पश्चिम भाग लेते हुये मानसिंह पटवारी के मकान तक वहां से तरफ पश्चिम घूमकर दक्षिणी भाग लेते हुये सद्दा के नगला वालों की चक्की से तरफ दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर घनश्याम बिडला प्रेस पहुंचकर तरफ पूर्व मे घूमकर उत्तरी भाग लेकर रमेश बरोली वाले के वहां से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग शामिल कर हरिकिशन गुर्जर के वहां से पूर्वी भाग लेते हुये किरोडी के मकान तक वहां से पूर्वी भाग लेकर हिण्डौन रोड चलकर विनोद की दुकान वहां तरफ पूर्व घूमकर उत्तरी भाग लेते हुये हरिदत्त मास्टर तक	887	56	2	
17	ठाकुर बर्फ फेक्ट्री से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए कल्ला राम गर्ग होते हुए पूर्वी भाग को सम्मिलित कर पप्पू पान वाले हिण्डौन रोड तक वहां से पूर्व दिशा क ओर चलकर ओसवाल तेल मील होते हुए समस्त उत्तरी भाग का सम्मिलित करते हुए बिजली घर तक, वहां से उत्तर दिशा की ओर चलकर हरीप्रसाद झारकई वालो तक, वहां से पश्चिम दिशा मे मुडकर दक्षिणी भाग को सम्मिलित कर	881	0	15	

	भण्डारी के मकान होते हुए रवि टांक चेला के प्लाट तक, वहां से दक्षिण दिशा में चलकर जयप्रकाश जैन के मकान तक, दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए मुंशी मैनेजर होते हुए महेन्द्र बंसल के प्लाट तक, वहां से दक्षिण चलकर डां मनोहर बंसल तक, वहां से पश्चिम दिशा की ओर दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए देवेन्द्र रीडर के मकान होते हुए ठाकुर बर्फ फैक्ट्री तक,				
18	हरिओम हिण्डेन रोड से दक्षिण चलकर पूर्वी भाग लेकर अनिल के मकान से पश्चिम चलकर सत्यवृत्त का मकान दक्षिण चलकर रामोतार सुनार से पश्चिम घूमकर देवी दवाई वाले के सामने दक्षिण भाग लेते हुये दक्षिण चलकर रामस्वरूप भट्टा वो रेल्वे फैंन्सिंग तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग शामिल कर ट्रक यूनियन तक वहां से उत्तर घूमकर पश्चिम भाग लेकर अग्रसेन सर्किल से पश्चिम चलकर दक्षिण भाग शामिल कर हरिओम हिण्डौन की दुकान हिण्डौन रोड तक	874	35	16	
19	हिण्डौन फाटक से उत्तर दिशा की ओर गल्स स्कूल होते हुये पूर्वी भाग को सम्मिलित कर बाबूलाल घमण्डी होते हुये कैलाश रामदयाल हुकम से पूर्वी दिशा की ओर चलते हुये मोहन मीणा होते हुये बच्चू कंडेरा तक एवं वहां से दक्षिण दिशा में चलते हुये रामसिंह भरबूजा होते हुये लीला गुर्जर के मकान को सम्मिलित करते हुये रेल्वे लाईन के सहारे गडिया लुहारों को सम्मिलित करते हुये हिण्डौन फाटक तक	973	408	88	
20	लख्मी बर्तन वाले के घर से पूर्व दिशा की ओर चलते हुये प्रताप मास्टर के मकान से आगे की तरफ चलते हुये रामभरोसी प्रजापत के मकान तक एवं उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुये भजनलाल मीण के मकान को शामिल करते हुये अजीराम यादव के मकान से मुख्य बाईपास सडक पर चलते हुये बाईपास के पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुये डी.बी कालेज के सामने बाईपास के कोने होते हुये पश्चिमी दिशा की ओर चलते हुये मण्डी के उत्तर पूर्वी कोने तक वहां से दक्षिण दिशा की अरे मण्डी के पश्चिमी गट 80 फुट रोड तक वहां	830	119	151	

	से पूर्व दिशा में चलकर उत्तरी भाग को शामिल करते हुये रामोतार के घर होकर दक्षिण दिशा में मुख्य बाईपास के पूर्वी भाग को शामिल करते हुये लख्मी बर्तन वाले के घर तक				
21	वृन्दावन खाती के बाईपास स्थित प्लाट से तरफ दक्षिण दिशा चलकर बजरंग स्कूल होते हुये पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुये रमाकान्त पण्डित कुट्टीन वाले तक वहां से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ते हुये रामकिशोर मास्टर होते हुये हीरालाल पूरन माली केसरा वाले के मकान तक व वहां पश्चिम दिशा की ओर चलेकर मनीराम शर्मा आईएएस से उत्तर की ओर चलकर योगेन्द्र मुनीम के मकान होते हुये पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुये सीयाराम सैन के मकान होते हुये तारा टिकिया वाले के मकान तक एवं पूर्व दिशा की अरे मुड़ते हुये श्योनाथ के प्लाट होकर वृन्दावन खाती बाईपास रोड स्थित प्लाट तक	747	6	18	
22	एसडीओटी के मकान से होते हुये पूर्व दिशा की ओर कमल नरूका होते हुये उत्तरी भाग को सम्मिलित कर राजू चलना वाले तक एवं वहां से उत्तर दिशा की अरे मुड़कर श्यामलाल सैकेरटरी होते हुये दयासागर वैध होते हुये पश्चिमी भाग को सम्मिलित करते हुये मूलसिंह ठाकुर कचैडी वाले तक वहां से पश्चिम दिशा की अरे मुड़कर गोपाल पथैना वाले के प्लाट होते हुये रामस्वरूप गणेश टैण्ट हाउस वाले के प्लाट तक वहां से दक्षिण चलकर भगवानसहाय मैनेजर होते हुये एसडीओटी के मकान तक	605	18	24	
23	भैरू बाबा के मन्दिर से 80 फुट सड़क तक पश्चिम दिशा की ओर रामनिवास यादव के मकान होकर दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुये महेश मास्टर तक एवं दक्षिण दिशा में मुड़ते हुये गंभीर मास्टर होते हुये राधेश्याम सैन के मकान तक समस्त पूर्वी भाग को सम्मिलित करते हुये वहां से पूर्व दिशा की ओर मुड़ते हुये लक्ष्मण शर्मा होते हुये कन्हैया ठाकुर राफ वाले होते हुये उत्तर भाग को सम्मिलित करते हुये राधे जांगिड के बगल वाले खाली प्लाट तक वहां से उत्तर दिशा की ओर चलेकर पश्चिमी भाग को	832	0	75	

	सम्मलित करते हुये भैरू बाबा के मन्दिर तक				
24	कृषि उपज मण्डी के पिछले वाले गेट 80 फुट से तर्फ दक्षिण चलकर पूर्वी भाग लेते हुये श्रवण बजाज घेर तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग लेते हुये मानसिंह पटवारी के सामने खाली प्लाट पहुंचकर वहा से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग लेते हुये सडक-सडक चलकर 80 फुट रोड तक वहां से तरफ पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग को शामिल करते हुये मण्डी के पिछले गेट 80 फुट तक	997	0	28	
25	एफसीआई गोदाम से तरफ दक्षिण कठूमर रोड चलकर पूर्वी भाग शामिल कर रा.सी.मा. विद्यालय तक वहां से पूर्व में चलकर उत्तरी भाग शामिल कर मोदियों के मकान शामिल कर खण्डेलवाल धर्मशाला के दक्षिण कोने तक वहां से पूर्व चलकर उत्तरी भाग चलकर पोस्ट आफिस तक वहां से उत्तर चलकर पश्चिमी भाग शामिल कर कृषि उपज मण्डी की बाउण्ड्री सहारे सहारे चलकर मण्डी काना बाईपास तक वहां से पश्चिम चलकर दक्षिणी भाग शामिल कर एफ.सी.आई. कठूमर रोड तक	522	10	20	
	कुल योग	17634	1316	536	

अधिशायी अधिकारी

नगरपालिका खेरली (अलवर)

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।